




Stone IV



Handwritten text in Arabic script, including the name 'Mulla Asadullah Khan' and other illegible words.



Stone IV



Stone IV



Stone IV



رقم نامہ (منی آرڈر) پاکستان

ذیشان	امریکا ریل مونرو	اسٹیٹ	رقم حاصل شدہ	(الفاظ)	نیمس	دور	(الفاظ)	د	(نور)	"
-------	------------------	-------	--------------	---------	------	-----	---------	---	-------	---

رسید براگی مورسل

846

مہر تا ریغ قبا کا لہ صبا درہ

گی یا ضرر سمیہ ہونے

ذیشان ب ۰۶۹۵

بنا خراجہ مورسل مورسل

مورسل

یا بوشقہ خزیریش اراہ

براہ کرم برسی





ذیشان



ذیشان کے حساب میں محسوب فرمادین






REGD RECEIPT

سکہ نشانہ

CERTIFICATE OF POSTING







Handwritten text in a script, possibly Tibetan or Nepali, on a piece of aged paper.

Handwritten text in a script, possibly Tibetan or Nepali, on a piece of aged paper.

Handwritten address in red ink: *Bahadur Chhangalad*. Includes a yellow "Missent" sticker and circular postmarks from DELA and BIKANEER.

DZONG
SERIES
10
POST CARDS
HIS MAJESTY'S GOVT. OF BHUTAN

Handwritten text and a circular postmark on a piece of aged paper.

Handwritten text and a circular postmark on a piece of aged paper.




POST CARD
ADDRESS ONLY

POST CARD
THE ANNEXED CARD IS FOR THE REPLY
ADDRESS ONLY

Handwritten text in a script, possibly Tibetan or Nepali, on a piece of aged paper.

POST CARD
ADDRESS ONLY
RINPUNG-DZONG

AEROGRAMME
AIR MAIL
PAR AVION
BHUTAN
3 CH 00 30



संस्थान गोंडल दरजारी काम आगत.

विशाल मंत्रालय का गोंडल दरजारी काम आगत
आगत पोस्टल ऑफिस






श्रीमान श्री. मर
दोस्ताने





गोंडल.

मुकाम गोंडल

INDIAN POSTAL SERVICE CARD



INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT
TRAVANCORE - COCHIN ANCHAL CARD




ON POSTAL SERVICE
To: Gorindram
Shri Malaram
Shri Antari
Shri Harsh
Shri Sikel

From: The Postmaster, P. O.

ON MYSORE

GOVT. SERVICE

[The name and address of the addressee and the official designation of the sender to be written]




To: M/s. Ramana Metal Refinery & Metal Industries Ltd.



Jainam

Office of the Controller of Stores, Mysore State Railway, Mysore South.











(34) FARIDKOT: Gena with KGVI la. India. Amersial 'KOTKAPURA - FARIDKOT STATE', 1940. - VI-50.












Handwritten notes in Hindi, including '206 2' and '116'.














A list of handwritten numbers and names, possibly a ledger or inventory list.











PAYEE'S ACKNOWLEDGMENT
To be signed on delivery of the Money Order.

Particulars of the Money Order.

No. 390 Date 12-11 1883

For Rs. 150 As. —

Signature of the Payee or the Post Master [Handwritten Signature]

Date of delivery _____ 1883

Dated Stamp of Head Office of Issue.

MON. ORDER
SEHORE.
7 NOV. 83

TONK
NOV. 13.

NOTE.—This acknowledgment will be signed either by the Payee or the Post Master of the office of delivery and will be returned to Remitter. It is not a receipt for money paid, but an Acknowledgment of the delivery of a Money Order obtained for the satisfaction of the Remitter.

रुपया पाने वाले का इकरार इस तरफ रुपया के भेजने वा

नम्बर 683 तारीख 15 July 1883

रुपया 150 आना —

दस्तखत रुपया पाने वाले को [Handwritten Name]

तारीख तक से मरणा [Handwritten Name] से नष्ट [Handwritten Name]

मनी आर्डर की मोहर दफतर सहर की जिस से मनी आर्डर जारी हुआ।

MON. ORDER
SEHORE.
JUL 11

TONK
JUL 16



नकशा 88 Form 48 P.R. 5-10-8






DHAR STATE POST CARD





धार दरवार पोस्ट कार्ड

इस तरफ सिर्फ पता ही लिखा जाय.

दरवार
डाक श. 111
पाव आणा







Handwritten notes on brown paper strips, including:

- 36-880-151-11
- 11111111111111111111
- 22-322132213
- 22222222222222222222
- 22222222222222222222
- 22222222222222222222

Postcard with handwritten text in Urdu and English:

لغات و لغتیں اور لسانیات کے شعبے سے متعلق
 پاکستان کی تاریخ اور اس کی ترقی کے بارے میں
 معلومات حاصل کرنے کے لیے
Auratus
 اللہ کے فضل سے

INDIA POSTAGE
 ONE ANNA
 CALCUTTA

Postcard with handwritten text:

IDAR ~~1954~~ BOGUS 70

3.50

Postcard with a stamp and handwritten notes:

INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS
 HALF ANNA
 1953

(31) (170) 71003
 Handstamp on machine
 Indian P & T Deptt.
 Inclusion of Hyderabad Post Card (C), Reply Post Card (1), envelopes (4) and T-C Post Cards (7) and envelope (1), All India mint. (22)-1350.

Postcard with a stamp and text:

पोस्ट कार्ड
 किशनगढ़
 KISHANGARH STATE
 POST CARD
 इस तरफ सिर्फ पता ही लिखा जाय

QUARTER ANNA
 1953

Postcard with a circular stamp:

FIFTEEN CENTS
 KADEN

Postcard in a yellow envelope with a stamp and text:

DHAR STATE POST CARD
 संस्थान धार पोस्ट कार्ड
 THE ADDRESS ONLY TO BE WRITTEN ON THIS SIDE.
 इस तरफ सिर्फ पता ही लिखा जाय.

George Alevizos
 2716 Ocean Park Blvd., Suite 1020
 Santa Monica, CA 90405 USA
 Telephone 213/450-2543

File Folder _____ Envelope _____ Other _____
 Lot 301496
 90 823

PLEASE DO NOT REMOVE FROM ENVELOPE

